

Central Board of open Schooling and Examination

Academic Year 2025–26

Subject: Trade 22 Banking

Class: 12th

Part A: Theory / सैद्धांतिक भाग

Unit 1: Introduction to Banking

English

- Meaning and functions of banks
- Types of banks: commercial, cooperative, regional rural, development banks
- Role of banking in economic development
- Structure of Indian banking system

हिन्दी

- बैंक की परिभाषा और कार्य
- बैंकों के प्रकार: वाणिज्यिक, सहकारी, ग्रामीण क्षेत्रीय, विकास बैंक
- आर्थिक विकास में बैंकिंग की भूमिका
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना

Unit 2: Banking Services and Products

English

- Deposits: Savings, Current, Recurring, Fixed Deposit
- Loans & Advances: Personal, Housing, Education, MSME
- Online banking: Net banking, Mobile banking, UPI
- Payment systems: Cheques, NEFT, RTGS, IMPS

हिन्दी

- जमा योजनाएँ: बचत, चालू, आवर्ती, सावधि जमा
- ऋण एवं अग्रिम: व्यक्तिगत, आवास, शिक्षा, एमएसएमई
- ऑनलाइन बैंकिंग: नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI

- भुगतान प्रणाली: चेक, NEFT, RTGS, IMPS

Unit 3: Customer Service & Banking Regulations

English

- KYC norms and customer verification
- Rights & duties of customers
- Consumer protection in banking
- Introduction to RBI rules, CRR, SLR

हिन्दी

- केवाईसी नियम एवं ग्राहक सत्यापन
- ग्राहकों के अधिकार और कर्तव्य
- बैंकिंग में उपभोक्ता संरक्षण
- RBI के नियम, CRR, SLR का परिचय

Unit 4: Accounting in Banks

English

- Basic principles of accounting
- Bank cash book, ledger & journal
- Preparation of trial balance
- Understanding bank reconciliation statement

हिन्दी

- लेखांकन के मूल सिद्धांत
- बैंक कैश बुक, लेजर एवं जर्नल
- ट्रायल बैलेंस का निर्माण
- बैंक सुलह विवरण का अध्ययन

Unit 5: Risk Management & Security in Banking

English

- Types of risks: credit, market, operational
- Fraud prevention and cyber security
- Role of insurance in banking
- Safe deposit lockers and security procedures

हिन्दी

- जोखिम के प्रकार: ऋण, बाजार, परिचालन
- धोखाधड़ी रोकथाम एवं साइबर सुरक्षा
- बैंकिंग में बीमा की भूमिका
- सुरक्षित लॉकर और सुरक्षा प्रक्रियाएँ

Unit 6: Financial Inclusion & Digital Finance

English

- Government schemes: PMJDY, Mudra, Atal Pension Yojana
- Microfinance & self-help groups
- Digital wallets and fintech services
- Banking services in rural areas

हिन्दी

- सरकारी योजनाएँ: पीएमजेडीवाई, मुद्रा, अटल पेंशन योजना
- सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूह
- डिजिटल वॉलेट और फिनटेक सेवाएँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ

Part B: Practical / प्रायोगिक भाग

Practical Work (Any 6 Activities)

English

- Filling bank forms: deposit, withdrawal, cheque
- Observing bank counters and departments
- Demonstration of online banking & UPI
- Preparation of a simple bank cash book
- Preparing sample bank reconciliation statements
- Project: Visit a bank and prepare a report

हिन्दी

- बैंक फॉर्म भरना: जमा, निकासी, चेक
- बैंक काउंटर एवं विभागों का निरीक्षण
- ऑनलाइन बैंकिंग एवं UPI का प्रदर्शन
- बैंक कैश बुक बनाना

- बैंक सुलह विवरण तैयार करना
- प्रोजेक्ट: किसी बैंक का भ्रमण एवं रिपोर्ट

☐ Examination Pattern / परीक्षा पैटर्न

Theory Exam / सिद्धांत परीक्षा

- Total Marks: **80**
- Duration: **3 Hours**

Practical Exam / प्रायोगिक परीक्षा

- Total Marks: **20**

Internal Assessment / आंतरिक मूल्यांकन

- Assignment + Project Work

Final Note

This curriculum is designed to empower learners with knowledge, skill, and ethical values — nurturing them into responsible citizens and competent professionals who contribute meaningfully to society and the nation.